



2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव के लिए

उम्मीदवार नामांकन 19 अगस्त को बंद हो जाएंगे

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (2 अगस्त, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का क्लर्क का ऑफिस लगातार, 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव (Brampton Municipal and School Board Election) के उम्मीदवार नामांकन और तृतीय पक्ष के विज्ञापक रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर रहा है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन की अवधि, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को दोपहर बाद 2 बजे खत्म हो जाएगी।

तृतीय पक्ष के विज्ञापकों के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि, 21 अक्टूबर, 2022 तक जारी रहेगी।

उम्मीदवारों और तृतीय पक्ष के विज्ञापकों के लिए, आम गाइडलाइंस के बारे में प्रेजेंटेशन, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर उपलब्ध है।

उम्मीदवार

सिटी, निम्नलिखित ऑफिसों के लिए नामांकन स्वीकार कर रही है:

- मेयर
- रीजनल काउंसलर
- सिटी काउंसलर
- इनके लिए स्कूल बोर्ड ट्रस्टी:
 - पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Peel District School Board)
 - डफरिन-पील कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Dufferin-Peel Catholic District School Board)
 - कॉंसिल स्कॉलर कैथोलिक मोनअवनीर (Conseil scolaire catholique MonAvenir)

[सिटी ऑफ मिस्सिसागा \(City of Mississauga\)](#), स्कूल बोर्ड ट्रस्टी, कॉंसिल स्कॉलर वायामोंड (Conseil scolaire Viamonde) के लिए उम्मीदवार नामांकन स्वीकार करेगी।

उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म और जानकारी पैकेज [ऑनलाइन \(online\)](#) और ब्रैम्पटन सिटी हॉल (Brampton City Hall) में सिटी क्लर्क के ऑफिस में उपलब्ध हैं। फार्म, 18 अगस्त, 2022 तक, नियमित ऑफिस समय के दौरान, अपॉइंटमेंट के द्वारा, खुद आकर (या किसी एजेंट के द्वारा) फाइल किए जाने आवश्यक हैं। यदि आपकी नामांकन फार्म फाइल करने के अंतिम दिन, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को अपने फार्म फाइल करने की योजना है, तो अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। इस दिन, उम्मीदवारों को केवल पहले-आएं-पहले-पाएं के आधार पर ही सेवा दी जाएगी। 19 अगस्त, 2022 को फाइल करने का समय, सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक है। कृपया आवश्यक

फार्मों, जानकारी पैकेज तक पहुंच के लिए और फाइल करने हेतु अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, www.brampton.ca/BramptonVotes पर जाएं।

फाइल करने के समय, फीस (मेयर के लिए 200.00 डॉलर, अन्य सभी पोजीशनों के लिए, 100.00 डॉलर) लगेगी, जो नकद, डेबिट कार्ड, सर्टिफाइड चेक या मनीऑर्डर के द्वारा भरी जा सकती है। आवेदकों के लिए [नाम और योग्य होने के पते का प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है \(Proof of name and qualifying address\)](#)। केवल असली दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे; फैंक्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वर्जनों की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार, अपना नॉमिनेशन पेपर (Nomination Paper) फाइल करने से पहले न तो किसी भी कैंपेन पर पैसे खर्च कर सकता है और न ही उसके लिए पैसे ले सकता है।

तृतीय पक्ष के विज्ञापक

किसी भी व्यक्ति, कार्पोरेशन या ट्रेड यूनियन के लिए, जो किसी उम्मीदवार का प्रचार, हिमायत या विरोध करने के लिए, प्रसारण, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी माध्यम से विज्ञापन देना चाहती है, सिटी के पास रजिस्टर करना आवश्यक है।

रजिस्ट्रेशन फार्म और जानकारी पैकेज [ऑनलाइन \(online\)](#) और ब्रैम्पटन सिटी हॉल में सिटी क्लर्क के ऑफिस में उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन, 21 अक्टूबर, 2022 तक, नियमित ऑफिस समय के दौरान, खुद आकर (या किसी एजेंट के द्वारा) फाइल किए जाने आवश्यक हैं। रजिस्ट्रेशन पेपर फाइल करने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। कृपया आवश्यक फार्मों, जानकारी तक पहुंच के लिए और फाइल करने हेतु अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, www.brampton.ca/BramptonVotes पर जाएं।

रजिस्ट्रेशन फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह फाइल करने के समय, [मूल पहचान दस्तावेज \(original identification\)](#) पेश करे। जो प्रतिनिधि किसी कार्पोरेशन या ट्रेड यूनियन तृतीय पक्ष के विज्ञापक की तरफ से रजिस्टर करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह कार्पोरेशन या ट्रेड यूनियन के नियुक्त अफसर का अथॉराइज़ेशन पत्र प्रदान करे। केवल असली दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे; फैंक्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वर्जनों की अनुमति नहीं है। तृतीय पक्ष का विज्ञापक अपना रजिस्ट्रेशन पेपर फाइल करने से पहले न तो किसी भी कैंपेन पर पैसे खर्च कर सकता है और न ही उसके लिए पैसे ले सकता है।

नामांकित उम्मीदवारों और रजिस्टर्ड तृतीय पक्ष के विज्ञापकों की सूची, नियमित रूप से अपडेट की जाएगी और www.brampton.ca/BramptonVotes पर उपलब्ध करवाई जाएगी।